

2. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$
3. $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
4. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{3}{4}$

Note: $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

5. $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Note: $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Exam related Facts:

$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

1. $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
2. $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

4. à¤?à¤?à¤;à¤;à¤-à¤¼à¤•à¤?à¤? à¤, à¤•à¤µà¤|à¤?à¤||à¤? à¤, à¤?à¤«à¤•à¤?à¤µà¤?à¤-à¤° à¤à¤à¤¼à¤?à¤?à¤?, à¤, à¤°à¤?à¤¼à¤°à¤? à¤|à¤;à¤||à¤¼à¤°à¤;à¤°à¤•à¤|à¤?à¤||à¤?à¤? à¤?à¤° à¤?à¤?à¤;à¤¤ à¤°à¤?à¤²à¤;à¤?à¤? à¤?à¤? à¤@à¤¼à¤§à¤•à¤-à¤@ à¤, à¤? à¤, à¤•à¤°à¤?à¤•à¤;à¤¤ à¤?à¤° à¤?à¤?à¤;à¤@à¤•à¤@à¤?à¤|à¤¼à¤°à¤?• à¤•à¤?à¤? à¤°à¤¹à¤² à¤µà¤;à¤?à¤, à¤;à¤¤ à¤?à¤°à¤?à¤? à¤°à¤? à¤§à¤•à¤-à¤¼à¤° à¤?à¤?à¤?à¤•à¤°à¤;à¤¤ à¤?à¤°à¤?à¤?à¤¼à¤¤

Category

1. Daily Current Affairs in Hindi

Tags

1. 000-GPU à¤, à¤•à¤°à¤° à¤?à¤?à¤°à¤•à¤-à¤?à¤?à¤° à¤?à¤¼ à¤°à¤;à¤°à¤•à¤@à¤¼à¤¤£
2. à¤à¤¼à¤°à¤¤ à¤?à¤? à¤?à¤¤à¤•à¤@à¤°à¤;à¤°à¤•à¤à¤° AI à¤?à¤°à¤°à¤°à¤; à¤?à¤? à¤²à¤;à¤• à¤-à¤¼à¤°à¤¤ à¤?à¤°à¤?à¤?à¤¼ 10

Date

2024/11/21

Date Created

2024/03/09

Author

firstcareer-in